

# मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (बी) के अंतर्गत

## अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1 खण्डवा

की दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में जानकारी

1.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय 2)

1.1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	उपसंभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जल संसाधन संभाग के दायित्वों का निर्वहन
1.2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं इन सुविधाओं का विस्तार करना
1.3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	जल संसाधन संभाग के दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक दृष्टि संभाग का उपसंभागों में गठन
1.4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	प्रदेश में विचाराधीन/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन एवं निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव
1.5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	तदैव
1.6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	तदैव
1.7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा	संलग्न एनेक्सर – एक में रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है
1.8	लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
1.9	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	निर्मित सिंचाई प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित कृषक संगठन
1.10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	विभागीय स्तर पर अनुश्रवण
1.11	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1 खण्डवा
1.12	कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय :	प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे

## 2.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

(कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का

विवरण उपलब्ध कराएं)

अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1 खण्डवा	
शक्तियां	प्रशासकीय	उपसंभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति
	वित्तीय	संचालन एवं रखरखाव की दृष्टि से जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपी गई नहर प्रणालियों के रखरखाव कार्यों की रु. 50,000/- तक की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना
	अन्य	
कर्तव्य	प्रदेश में विचाराधीन/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव	

### 3.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख का नाम :

- अधिनियम : (अ) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931  
 (ब) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999  
 (स) लेखा संहिता
- नियम : कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम
- मेन्यूअल्य : (अ) मध्यप्रदेश कार्य विभाग मेन्यूअल्स 1983 भाग- ए एं एवं एं
- परिपत्र : (अ) मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
- अन्य : (अ) शेड्यूल ऑफ रेट्स, 2003

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और पता : कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.  
 अभिलेख की प्रति कहां से  
 प्राप्त कर सकते हैं?

दूरभाष : 0733-2223112

फैक्स : —

ई-मेल : —

अन्य : —

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :  
 (यदि कोई हो)

### 4.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

#### 4.1 नीति निर्धारण हेतु :

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन-प्रतिपिधि की परामर्शी/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1.	निर्मित सिंचाई प्रणाली का संचालन एवं रखरखाव	हाँ	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित कृषक संगठन

#### 4.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से/के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
निरंक			

#### 5.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों ;बंजमहवतपमेद्ध के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य। (कृपया 'अन्य' का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण ;छंजनतम - ब्दजमदजद्ध	अभिलेखों की अवधि
संलग्न एनेक्सर - दो के अनुसार				

#### 6.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

कृपया लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त

विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

निरंक

### 7.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।

लोक प्राधिकरण का नाम : अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1  
खण्डवा

सहायक लोक सूचना अधिकारी : मुख्यालय में पदस्थ उपयंत्री :- श्री जी. एस. पाटीदार

विभागीय अपीलेट अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री यू.सी. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा	0733	2223112	2223268	—	—	हरसूद नाका, सिविल लाईन्स, खण्डवा.

### 8.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

संलग्न एनेक्सर – तीन के अनुसार

### 9.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपदवार दें।

#### नियमित कर्मचारियों की सूची

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.
1.	2	3	4
1	श्री एन.एल.अहिरवार	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
2	श्री आनन्द चौरे	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
3	श्री एल. एल. बाथम	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
4	श्री जी. एस. पाटीदार	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
5	श्री जी.एल.डोडे	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा

6	श्री पी.के.सोहनी	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
7	श्री ए. के. झवर	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
8	श्री एल. के. पगारे	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
9	श्री पी. के. करे	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
10	श्री बाबू गौतम	सहा. वर्ग-2	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
11	श्री एस. के. गढ़वाल	सहायक मानचित्रकार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
12	श्री एस. एल. जैन	सहा वर्ग-3	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
13	कु. लक्ष्मी सहजवानी	सहा. वर्ग-3	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
14	श्रीमति ज्योति गजांकुश	सहा. वर्ग-3	
14	श्री बी. एल. रहपुरिया	अमीन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
15	श्री बी. एल. धुर्वे	अमीन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
<b>कार्यभारित कर्मचारियों की सूची</b>			
1	श्री देवराज मुदलियार	पम्प आपरेटर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
2	श्री एम. एस. सादिक	इलेक्ट्रीशियन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
3	श्री शिवा सुखलाल	माली	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
4	श्री सुभाष बालसिंघे	ड्रायवर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
5	श्री सिद्दीक खान	ड्रायवर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
6	श्री मधुकर राव	ड्रायवर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
8	श्री बट्टी बिहारी	ड्रायवर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
9	श्री अमृतलाल	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
10	श्री हीरालाल	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
11	श्री रमजान सकूर	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
12	श्री विक्रमसिंह	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
13	श्री भारतसिंह	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
14	श्री बनवारी बिहारी	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
15	श्री धनसिंह	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
16	श्री रामकृष्ण	वाटरमेन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
17	श्री रमेश सेन	डाकरनर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
18	श्री देवीसर पाण्डे	वाटरमेन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
19	श्री रूपसिंह	वाटरमेन	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
20	श्री मूलचन्द	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
21	श्री हरीशंकर सोनी	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
22	श्री धरमराज	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
23	श्री रेवाराम	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
24	श्री कन्हैया लाल	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा

समान कार्य समान वेतन कर्मचारियों की सूची			
1	श्री दिनेशचन्द यादव	टाईमकीपर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
2	श्री विनोद कुमार	टाईमकीपर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
3	श्री रमेशचन्द नेगी	टाईमकीपर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
4	श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी	टाईमकीपर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
5	श्री राजूसिंग	कापीस्ट	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची			
1	श्री बदामीलाल	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
2	श्री अर्जुन गड़बड़	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
3	श्री ऊँकार छीतर	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
4	श्री हीरालाल मंसाराम	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
5	श्री कोमलसिंग	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
6	श्री दिनेश हीराजी मालाकार	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
7	श्री मनोहर गुलाब	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
8	श्रीसदाशिव गणपत	रेस्ट हाउस चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
9	श्री जगन्नाथ काजले	स्टोर चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
10	श्री अनवर खान	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
11	श्रीमती रहमन बी	माली	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
12	श्रीमती जयन्ती साकल्ले	टायपिस्ट	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
13	श्री जगदीश बल्लूजी	चौकीदार	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा
14	श्री नितिन सारवार	पार्ट टाईम स्वीपर	जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 खण्डवा

### 10.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

#### नियमित कर्मचारियों की सूची

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक ( कुल परिलब्धियाँ )	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता
1	2	3	4
1	श्री एन.एल.अहिरवार	32378.00	—
2	श्री एल. एल. बाथम	27,104.00	—
3	श्री जी. एस. पाटीदार	28,307.00	—
4	श्री ए. के. झवर	28,759.00	—
5	श्री जी.एल.डोडे	17,786.00	—
6	श्री पी.के.सोहनी	28,759.00	—

7	श्री ए.के.चौरे	23,860.00	—
8	श्री एल. के. पगारे	26,660.00	—
9	श्री पी. के करे	28,759.00	—
10	श्री बाबू गौतम	14,813.00	—
11	श्री एस. के. गढ़वाल	13,743.00	—
12	श्री एस. एल. जैन	12,525.00	—
13	श्री बी. एल. रहपुरिया	12,275.00	—
14	श्री बी. एल. धुर्वे	11,373.00	—
15	कु. लक्ष्मी सहजवानी	—	—
<b>कार्यभारित कर्मचारियों की सूची</b>			
1	श्री देवराज मुदलियार	11,661.00	—
2	श्री एम. एस. सादिक	11824.00	—
3	श्री शिवा सुखलाल	8,194.00	—
5	श्री सुभाष बालसिंघे	11,774.00	—
6	श्री सिद्दीक खान	11736.00	—
8	श्री मधुकर राव	11,824.00	—
9	श्री बद्री बिहारी	8146.00	—
10	श्री अमृतलाल	8016.00	—
11	श्री हीरालाल	8016.00	—
13	श्री विक्रमसिंह	8016.00	—
14	श्री भारतसिंह	7715.00	—
15	श्री बनवारी बिहारी	8146.00	—
16	श्री धनसिंह	8146.00	—
17	श्री रामकृष्ण	8146.00	—
18	श्री रमेश सेन	8146.00	—
19	श्री देवीसर पाण्डे	8146.00	—
20	श्री रूपसिंह	8146.00	—
21	श्री मूलचन्द	8146.00	—
22	श्री धरमराज	7581.00	—
23	श्री हरीशंकर सोनी	8146.00	—
24	श्री रेवाराम	8194.00	—

25	श्री कन्हैया लाल	7888.00	—
<b>समान कार्य समान वेतन कर्मचारियों की सूची</b>			
1	श्री दिनेशचन्द यादव	6999.00	—
2	श्री विनोद कुमार	6958.00	—
3	श्री रमेशचन्द नेगी	6999.00	—
4	श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी	6889.00	—
5	श्री राजूसिंग	7762.00	—
<b>दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची</b>			
1	श्री बदामीलाल	4195.00	—
2	श्री अर्जुन गड़बड़	4195.00	—
3	श्री ऊँकार छीतर	4195.00	—
4	श्री हीरालाल मंसाराम	4195.00	—
5	श्री कोमलसिंग	4195.00	—
6	श्री दिनेश हीराजी मालाकार	4195.00	—
7	श्री मनोहर गुलाब	4195.00	—
8	श्रीसदाशिव गणपत	4195.00	—
9	श्री जगन्नाथ काजले	4195.00	—
10	श्री अनवर खान	4195.00	—
11	श्रीमती रहमन बी	4195.00	—
12	श्रीमती जयन्ती साकल्ले	3825.00	—
13	श्री जगदीश बल्लूजी	4195.00	—
14	श्री नितिन सारवार	1598.00	—

### 11.0 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

#### 11.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए :

लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें।

वर्ष 2008-09 :

(राशि रु. लाख में)

स क्र	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
2	बामझर तालाब	तालाब एवं नहर	6 / 2007	3 / 2009	21.00	21.00	21.00	16.73	उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी
4	भोकरियाँ तालाब		6 / 07	3 / 09	99.00	99.00	99.00	62.89	
5	सिवना तालाब		6 / 07	6 / 2009	170.00	69.00	69.00	1.74	

### 11.2 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए : निरंक

### 12.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं :

○ कार्यक्रम/योजना का नाम	निरंक	
○ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा		
○ कार्यक्रम का उद्देश्य		
○ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)		
○ लाभार्थी की पात्रता		
○ पूर्वापेक्षाएं		
○ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया		
○ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड		
○ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)		
○ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया		
○ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें।		
○ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)		
○ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)		
○ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)		
○ संलग्नों की सूची		
○ संलग्नों का प्रारूप		
○ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें		
○ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)		

◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नम्बर
निरंक								

### 13.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

◇	कार्यक्रम का नाम	निरंक
◇	प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
◇	उद्देश्य	
◇	लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
◇	पात्रता	
◇	पात्रता का आधार	
◇	पूर्वापेक्षाएं	
◇	प्राप्त करने की प्रक्रिया	
◇	रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	
◇	आवेदन शुल्क	
◇	आवेदन पत्र का प्रारूप	
◇	संलग्नकों की सूची	
◇	संलग्नकों का प्रारूप	

#### ● प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नं.
निरंक							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

- ◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण निरंक
- ◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया निरंक

### 14.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराएं।

कार्य विभाग नियमावली 1983  
यूनिफाईड शेड्यूल ऑफ रेट्स, 2003  
सिंचाई स्पेसिफिकेशन्स

### 15.0 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में हो।

जल संसाधन विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध विभागीय जानकारीया

### 16.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

- सूचना पटल
- सूचना काउण्टर
- वेबसाईट

### 17.0 अन्य उपयोगी जानकारीयां

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न उनके उत्तर.

पूछे जाने वाले प्रश्नों व की जानकारी की उपलब्धता के अनुरूप उत्तर दिए जाते हैं।

17.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

● आवेदन पत्र ( तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है।
● शुल्क	विभाग के प्रावधान अनुसार
● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए— कुछ टिप्स	लिखित आवेदन द्वारा
● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	नागरिक द्वारा अपीलीय प्राधिकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा को अपील प्रस्तुत की जा सकती है

17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण	निरंक
● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
● लाभार्थी की पात्रता	
● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
● अनुदान/सहायता (यदि हो तो)	
● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
● अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	

● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
● संलग्नकों की सूची	
● संलग्नकों का प्रारूप	
● आवेदन करने की प्रक्रिया	
● चयन प्रक्रिया	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)	
● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका	
● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य	
● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण	

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो.

■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	निरंक
■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	
■ आवेदन करने के लिए कहां/ किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
■ संलग्नकों की सूची	
■ संलग्नकों का प्रारूप	
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	
■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि	
■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)	
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)	

17.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

■ पंजीयन का उद्देश्य	
■ आवेदक की पात्रता	
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
■ आवेदन करने के लिए कहां/ किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नकों की सूची</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नकों का प्रारूप</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने की प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ नवीनीकरण की प्रक्रिया</li> </ul>	

17.6 लोक प्राधिकरण ;डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवदए ज्तंकम जंगए मदजमतजंपदउमदज जंगए आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स का नाम व विवरण</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स लेने का उद्देश्य</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बड़े ;उंरवतद्ध डिफाल्टर्स की सूची</li> </ul>	


17.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/न्व द्वारा दी जा सकती है)

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदक की पात्रता</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नों की सूची</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नकों का प्रारूप</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने की प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टेरिफ तथा अन्य देय</li> </ul>	

17.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण निरंक

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1, खण्डवा

संगठनात्मक ढांचा





## निर्णय लेने की कार्यप्रणाली

क्र	कक्ष	प्रारंभिक कार्य करने वाले कर्मचारी / अधिकारी	प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी / कर्मचारी	अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कार्य संबंधित	उपयंत्री / सहायक मानचित्रकार / अनुरेखक	अनुविभागीय अधिकारी / उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी
2.	स्टोर लेखा संबंधित	उपयंत्री / स्टोर प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
3.	अन्य लेखा संबंधी	सहायक वर्ग-2 / सहायक वर्ग-3	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
3.	स्थापना संबंधित	सहायक वर्ग-2 / सहायक वर्ग-3	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
4.	सिंचाई राजस्व संबंधित	अमीन	उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी

## अनुविभागीय कार्यालय मे संधारित विभिन्न प्रकार के अभिलेखों/दस्तावेजो की जानकारी

क्रं.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार पुस्तक/ रजिस्टर	अभिलेख की प्रकृति	अभिलेख की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.
1	सिंचाई कार्यो के लिये तकनीकी परिपत्रों का संकलन	पुस्तक	हार्डकापी	
2	म.प्र.कार्य/विभाग मनुअल भाग 1,2,3,	पुस्तक	हार्डकापी	
3	प्रशासकीय स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
4	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
5	योजनवार सिंचाई का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
6	योजनावार राजस्व वसूली का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
7	सर्वेक्षित योजना का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
8	जल उपयोगिता मे कृषकों की भागेदारी अधिनियम 1999	पुस्तक	हार्डकापी	
9	यात्रा भत्ता रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	
10	आकस्मिक अवकाश	रजिस्टर	हार्डकापी	
11	वेतन रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	
12	भाड़ा अभिलेख	रजिस्टर	हार्डकापी	
13	इन्कम्बेंसी	रजिस्टर	हार्डकापी	
14	वेतन बृद्धि	रजिस्टर	हार्डकापी	
15	कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस.आर.)	पुस्तक	हार्डकापी	
16	चेक बुक प्राप्ति	रजिस्टर	हार्डकापी	
17	स्टाक संबंधी फार्म	फार्म	हार्डकापी	
18	टी.एण्ड.पी. संबंधी फार्म	फार्म	हार्डकापी	
19	न्यायालयीन प्रकरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
20	रेमिटेन्स पुस्तिका	रजिस्टर	हार्डकापी	
21	माप पुस्तिका पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
22	शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
23	वर्क एब्सट्रक्ट	रजिस्टर	हार्डकापी	
24	मस्टररोल पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
25	भुगतान न की गई मजदूरी की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
26	आवक पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
27	जावक पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
28	प्रशासकीय स्वीकृति की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
29	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
30	बिल पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
31	बांधों के वार्षिक /चक्रानुसार निरीक्षण की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
32	सम्पत्तियों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	

33	सड़क/नहरो पर निर्मित पक्के कार्यों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
34	बेंच मार्क पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
35	विद्युत यांत्रिकी उपकरणों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
36	प्रदाय कर्ताओं के देयको की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
37	इनडेन्ट बुक	पुस्तिका	हार्डकापी	
38	तिजोरी की चाभी की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
39	मशीनों एवं वाहनों की लाग बुक	पुस्तिका	हार्डकापी	
40	मशीनों एवं कार्य शाला संयंत्रों की हिस्टी सीट	रजिस्टर	हार्डकापी	
41	स्पिल्वे से निकलने वाली जल की मात्रा का विवरण दर्शाने वाली पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
42	टैक गेज पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
43	रेन गेज पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
44	जाब रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	